



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 52] नई दिल्ली, शनिवार, फरवरी 5, 1977/माघ 16, 1898

No. 52] NEW DELHI, SATURDAY, FEBRUARY 5, 1977/MAGHA 16, 1898

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation

MINISTRY OF LABOUR

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 5th February 1977

S.O. 136(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 6 of the Equal Remuneration Act, 1976 (25 of 1976), the Central Government hereby specifies the employments, in the manufacture of food products mentioned in the Schedule annexed hereto, for the purpose of constitution of one or more Advisory Committees, by the appropriate Government to advise it with regard to the extent to which women may be employed in such employments

THE SCHEDULE

Employments in the manufacture of food products—

- 1 Slaughtering, preparation and preservation of meat
- 2 Manufacture of dairy products
3. Canning and preservation of fruits and vegetables
4. Canning, preserving and processing of fish crustacean and similar foods
- 5 Grain mill products
- 6 Manufacture of bakery products.

7. Manufacture and refining of sugar other than indigenous sugar
8. Production of indigenous sugar, such as, boora, khandarn or gur, from sugar-cane and palm juice
9. Production of common salt
10. Manufacture of cocoa, chocolate and sugar confectionery (including sweet-meats).
11. Manufacture of hydrogenated oils, such as vanaspati ghee.
12. Manufacture of other edible oils and fats such as mustard oil, groundnut oil or til oil
13. Tea processing.
14. Coffee curing, roasting and grinding
15. Cashewnut processing such as drying, shelling, roasting salting of cashew-nut.
16. Manufacture of ice.
17. Manufacture of prepared animal feeds
18. Manufacture of starch
19. Manufacture of any other food products

[No S-42013/13/76-WC]

अम मंत्रालय

आधुनिकीकरण

नई दिल्ली, 5 फरवरी, 1977

क्र. प्र. 136 (प्र).—केन्द्रीय सरकार, समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 (1976 का 25) की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इससे उपाबद्ध अनुसूची में उल्लिखित खाद्य वस्तुओं के विनिर्माण के नियोजनों को समुचित सरकार एक या अधिक ऐसी सलाहकार समितियों गठित करने के लिए विनिर्दिष्ट करती है, जो उसे इस संबंध में सलाह देगी कि ऐसे नियोजनों में किस सीमा तक स्त्रियों को नियोजित किया जा सकता है।

अनुसूची

खाद्य वस्तुओं के निर्माण के नियोजन

1. पशुवध, मांस बनाना तथा मांस का परिरक्षण।
2. डेरी-वस्तुओं का विनिर्माण।
3. फलों और सब्जियों की डिब्बाबन्दी और परिरक्षण।
4. मछलियों, केकड़ों तथा समान खाद्य वस्तुओं की डिब्बाबन्दी, परिरक्षण तथा उपयोगीकरण।
5. अनाज मिलों द्वारा तैयार की गई वस्तुएं।
6. बेकरी वस्तुओं का विनिर्माण।
7. देसी खाण्ड से भिन्न चीनी का विनिर्माण और शोधन।
8. गन्ने और खजूर के रस से गुड, खण्डसारी या बूरे जैसी देसी खाण्ड विनिर्माण।
9. सामान्य तमक का उत्पादन।
10. कोको, चोकलेट और खाण्ड खाद्य (मिठाइयों सहित) का विनिर्माण।

11. बनस्पत घी आदि, जैसे हाइड्रोजेनीकृत तेलों का विनिर्माण ।
12. सरसों के तेल, मूँगफली के तेल या तिल के तेल जैसे अन्य खाद्य तेलों और चिकनाइयों का विनिर्माण ।
13. चाय-पत्ती का संसाधन ।
14. काफी को पकाना, भूनना तथा पीसना ।
15. काजू जैसे काजू सुखाना, उसका छिलका उतारना, काजू को भूनना या उसे नमक लगाना ।
16. बर्फ का विनिर्माण ।
17. पशुओं के लिए निर्मित खाद्यों का विनिर्माण ।
18. निशास्ता बनाना ।
19. किसी अन्य खाद्य पदार्थ का विनिर्माण ।

[स० एस-42013/13/76-डब्ल्यू० सी०]

S.O. 137 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 1 of the Equal Remuneration Act, 1976 (25 of 1976), the Central Government hereby appoints the 10th day of February, 1977, as the date on which the said Act shall come into force in respect of employments, in the manufacture of food products, specified in the schedule hereto annexed.

THE SCHEDULE

Employments in the manufacture of food products—

1. Slaughtering, preparation and preservation of meat.
2. Manufacture of dairy products.
3. Canning and preservation of fruits and vegetables.
4. Canning, preserving and processing of fish crustacean and similar foods.
5. Grain mill products.
6. Manufacture of bakery products.
7. Manufacture and refining of sugar other than indigenous sugar.
8. Production of indigenous sugar, such as, boora, khandasari or gur, from sugar-cane and palm juice
9. Production of common salt
10. Manufacture of cocoa, chocolate and sugar confectionery (including sweet-meats)
11. Manufacture of hydrogenated oils, such as vanaspathi ghee
12. Manufacture of other edible oils and fats such as mustard oil, groundnut oil or til oil
13. Tea processing.
14. Coffee curing, roasting and grinding.
15. Cashewnut processing such as drying, shelling, roasting salting of cashew-nut.
16. Manufacture of ice
17. Manufacture of prepared animal feeds.
18. Manufacture of starch
19. Manufacture of any other food products

[No S-42013/13/76-WC]

T. S. SANKARAN, Addl Secy.

का० प्रा० 137 (घ).—कन्द्रीय सरकार, समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 (1976 का 25) की धारा 1 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 10 फरवरी, 1977 को उस तारीख के रूप में नियत करती है जिसको उक्त अधिनियम इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट खाद्य वस्तुओं के विनिर्माण के नियोजनों के बारे में लागू होगा

अनुसूची

खाद्य वस्तुओं के निर्माण के नियोजन

1. पशुदध; मांस बनाना तथा मांस का परिरक्षण ।
2. डेरी-वस्तुओं का विनिर्माण ।
3. फलों और सब्जियों की डिब्बाबन्दी और परिरक्षण ।
4. मछलियों, केकड़ों तथा समान खाद्य वस्तुओं की डिब्बाबन्दी; परिरक्षण तथा उपयोगीकरण ।
5. अनाज मिलों द्वारा तैयार की गई वस्तुएँ ।
6. बेकरी वस्तुओं का विनिर्माण ।
7. देसी खाण्ड से भिन्न चीनी का विनिर्माण और शोधन ।
8. गन्ने और खजूर के रस से गुड़, खण्डसाही या बूरे जैसी देसी खाण्ड का विनिर्माण ।
9. तामान्य भस्म का उत्पादन ।
10. कोको, चोकलेट और खाद्य (मिठाइयों सहित) का विनिर्माण ।
11. बनस्पति वी आदि, जैसे हाइड्रोजेनीकृत तेलों का विनिर्माण ।
12. सरसों के तेल, मूँगफली के तेल या तिल के तेल जैसे अन्य खाद्य तेलों और चिकनायों का विनिर्माण ।
13. चाय-पत्ती का संसाधन ।
14. काफी को पकाना, भूनना तथा पीसना ।
15. काजू संसाधन जैसे काजू सुखाना, उसका छिलका उतारना, काजू को भूनना या उसे नमक लनाना ।
16. बर्फ का विनिर्माण ।
17. पशुओं के लिए निर्मित खाद्यों का विनिर्माण ।
18. निशास्ता बनाना ।
19. किसी अन्य खाद्य पदार्थ का विनिर्माण ।

[स० एस-42013/3/76-डब्ल्यू०सी०]

टी० एम० शंकरण, अवर सचिव ।

महा प्रबन्धक, भारत सरकार मन्त्रालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली द्वारा
मुद्रित तथा नियंत्रक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1977

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD,
NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1977